



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
INCOME TAX DEPARTMENT
PCCIT, ODISHA

To, CARCINOVA PRIVATE LIMITED AT- PLOT NO-739/8712, NAD IKULA SAHI,,SIKHARPUR, P.O/P.S- CHAUL IAGANJ, CUTTACK, CUTTACK 753004,Odisha India	
---	--

PAN: AAHCC0684Q	Dated: 29/08/2025	DIN & Order No : ITBA/COM/F/17/2025-26/1080171393(1)
--------------------	----------------------	---

Sir/ Madam/ M/s,

Subject: Proceedings under section 17(2) - Order

**APPROVAL UNDER SUB-CLAUSE (b) OF CLAUSE (ii) OF THE PROVISION TO
SUB CLAUSE (vi) OF CLAUSE (2) OF SECTION 17 OF THE INCOME TAX ACT, 1961.
(READ WITH THE RULES 3A(1) & 3A(2) OF INCOME TAX RULES,1962)**

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 के खंड (2) के परतुक खंड (ii) (बी) के अधीन प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त ओडिशा क्षेत्र एतद्वारा अस्पताल को अनुमोदन प्रदान करने हेतु आयकर नियमावली, 1962 के नियम 3ए(1) एवं 3ए(2) में निर्धारित दिशा-निर्देश को ध्यान में रखते हुए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 के परतुक खंड (2) के खंड (ii) के उपर्युक्त उपखंड (बी) में निहित उद्देश्य से कार्सिनोवा कैंसर हॉस्पिटल (ए यूनिट ऑफ कार्सिनोवा प्राइवेट लिमिटेड), नुआपटना , चौद्वार, कटक, ओडिशा को स्वीकृती का अनुमोदन प्रदान करती हूँ ।

In exercise of powers conferred on the Principal Chief Commissioner of Income Tax under sub-clause (ii) of the provisions to sub-clause (vi) of clause (2) of section 17 of the Income Tax Act, 1961, I, the Principal Chief Commissioner of Income Tax, Odisha Region hereby having regard to the guidelines prescribed in Rule 3A(1) & 3A(2) of the Income Tax Rules, 1962 for renewal of approval to a hospital, **Carcinova Cancer Hospital (A unit of Carcinova Pvt Ltd), PAN:AAHCC0684Q**, Nuapatana, Choudwar, Cuttack, Orissa for the purposes of the said sub-clause (b) of clause (ii) of the provision to sub-clause (vi) of clause (2) of section 17 of the Income Tax Act, 1961.

2. उपरोक्त अस्पताल को आयकर नियमावली, 1962 के नियम 3ए (2) में वर्णित निम्नलिखित निर्धारित रोग

Note: If digitally signed, the date of digital signature may be taken as date of document.
AAYAKAR BHAWAN, RAJASWA VIHAR, BHUBANESWAR, Odisha, 751007
Email: BHUBANESWAR.PCCIT@INCOMETAX.GOV.IN,

Note:- The website address of the e-filing portal has been changed from www.incometaxindiaefiling.gov.in to www.incometax.gov.in.
* DIN- Document Identification No.

अथवा बीमारी के लिए किसी नियोक्ता द्वारा अपने किसी कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य के इलाज़ पर हुए वास्तविक खर्च हेतुकी गई भुगतान को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 15, 16 व 17 में निहित उद्देश्यों के लिए कर्मचारी के परिलब्धि के रूप में नहीं माना जाएगा।

02. Any sum paid by an employer, in respect of any expenditure actually incurred by the employee on his/her medical treatment or treatment of any member of his/her family in the below mentioned hospital in respect of the following prescribed diseases or ailments as mentioned in the Rule 3A (2) of Income Tax Rules, 1962 shall not be treated as a perquisite in the hands of the employee for the purposes of Sections 15, 16, & 17 of the Income Tax Act, 1961:-

Sl. No.	Name of Diseases	Treatment Given
a	Cancer	Yes

3. ऐसी राशि के मामले में नियोक्ता आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 के अधीन स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार नहीं होगा

03. The employer will not be liable to deduct tax source under Section 192 in respect of such sum.

4. इस अनुमोदन को किसी अन्य उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार या प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, ओडिशा या सरकार के अधीन किसी अन्य कानूनी प्राधिकारी का अनुमोदन न समझा जाए।

04. The approval accorded should not be construed as approval of the Government of India or the Principal Chief Commissioner of Income-Tax, Odisha Region or any other statutory authority under the Government, for any other purpose(s).

5. यदि यह पाया जाता है कि आयकर नियमावली, 1962 के नियम 3ए के उप-नियम (1) में निर्धारित आवश्यक शर्तों को पूरा न करते हुए तथ्यों की गलत प्रस्तुति के साथ अनुमोदन प्राप्त किया गया है, तो इस अनुमोदन को किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। अनुमोदन को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों में परवर्ती परिवर्तनों के कारण यदि आवश्यक हों, तो इसमें संशोधन किया जा सकता है/ इसे वापस लिया जा सकता है।

05. This approval is subject to withdrawal at any time if it is found that the approval has been obtained through misrepresentation of facts or necessary conditions as stipulated in Sub-rule(1) of Rule 3A of the Income Tax Rules, 1962 are not fulfilled and is subject to

modification/withdrawal, if necessitated by subsequent changes in provisions governing the approval.

6. यह अनुमोदन दिनांक 26.09.2025 से प्रभावी होगा एवं दिनांक 25.09.2028 तक वैध माना जाएगा। यह अनुमोदन तभी प्राप्त हैबशर्तें ऐसे अनुमोदन के लिए नियम 3ए (1) के अधीन आवश्यक वैधानिक शर्तोंका अस्पताल द्वारा सतत अनुपालन किया जाता हो और आयकर अधिनियम, 1961 के तहत अनुमोदन को नियंत्रित करनेवाले प्रावधानों के किसी संशोधन द्वारा ऐसे परिवर्तनों की आवश्यकता हो ।

06. This approval takes effect from the date of this order i.e dt. 26.09.2025 and shall remain in force upto dt 25.09.2028. This approval is subject to the Hospital's continued compliance with the statutory conditions under Rule 3A (1) necessary for such approval and such notifications as may be necessitated by any amendment to the provisions governing the approval under the Income Tax Act, 1961.

7. यह अनुमोदन राज्य सरकार के वर्तमान नियमों के अनुसार फायरफाइटिंग आवश्यकता और आवश्यक प्रमाण पत्रों के प्रस्तुत करने के अध्याधीन होगी, जिसकी पूर्ति न होने पर पंजीकरण के नवीनीकरण को रद्द कर दिया जाएगा ।

07. This approval is subject to fulfilling fire-fighting requirement and production of necessary certificates as per the existing rules of the State Government failing which, renewal of registration will be cancelled.

TERMS AND CONDITIONS/ नियम और शर्तें

I. यह अनुमोदन अंतरण योग्य नहीं है ।/ This approval is not transferable.

II. आयकर विभाग के किसी अधिकारी या विभाग द्वारा विधिवत् प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए अस्पताल को सभी उचित समय पर खुला रखना होगा ।/The hospital shall at all reasonable times be open for inspection by such officers of the Income Tax Department as are duly authorized in this behalf

III. अस्पताल को आयकर नियमावली, 1962 के नियम 3ए(1) एवं 3ए(2) के अधीन निर्धारित ऐसे शर्तों की पुष्टि करनी होगी। यदि विधि द्वारा निर्धारित किसी भी शर्तों को अस्पताल संतुष्ट नहीं कर पाता है तो प्रधान अधिकारी के लिए यह अनिवार्य होगा कि इस तथ्य को अनुमोदन जारी करने वाले प्राधिकारी को तत्काल सूचित करें ।/ The Hospital shall confirm to such conditions as prescribed in Rule 3A (1) & 3A (2) of the Income Tax Rules, 1962. In the event of the establishment ceases to satisfy any of the conditions prescribed by law, it will be mandatory on the part of the Principal Officer to notify

the authority issuing this approval of such fact immediately.

IV. अनुमोदन के नवीकरण के लिए वर्तमान के अनुमोदन की समाप्ति के 30 दिन पहले ही आवेदन प्रस्तुत करना होगा ।/ The application for renewal of approval should be submitted at least 30 days before the expiry of current approval.

V. अनुमोदन की अवधि को बढ़ाने हेतु, एक प्रमाणपत्र यह उल्लेख करते हुए प्रस्तुत करना होगा कि आयकर नियमावली, 1962 के नियम 3ए में विनिर्दिष्ट सभी शर्तोंका संतोषजनक रूप से निरंतर पालन किया जा रहा है तथा मूल आवेदन में दर्शाए गए तथ्यों में किसी प्रकार का वास्तविक / भौतिक बदलाव नहीं किया गया है ।/

Subsequent approval by way of an order in writing shall be subject to filing of an affidavit to the effect that all the conditions specified in Rule 3A of the Income Tax Rules 1962 continue to be satisfied and that no substantive/ material change has occurred in the facts reported in the original application.

PARAMITA TRIPATHY
PCCIT, ODISHA

(In case the document is digitally signed please
refer Digital Signature at the bottom of the page)

Signature Not Verified
Digitally Signed.
Name: PARAMITA TRIPATHY
Date: 29-Aug-2025 16:59:46
Location: BHUBANESWAR